

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 24]

नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 20, 2016/पौष 30, 1937

No. 24]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 20, 2016/ PAUSA 30, 1937

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

(उच्चतर शिक्षा विभाग)

(प्रतिलिप्यधिकार प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 जनवरी, 2016

सं.एफ.16-4/2012-सीआरबी/विधायी एकक.—प्रतिलिप्यधिकार नियमावली, 2013 के नियम 51 के उप-नियम

(3) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण भाग- I में दिनांक 17 अगस्त, 2015 को प्रकाशित दिनांक 14 अगस्त, 2015 की पूर्व अधिसूचना संख्या 214 द्वारा नियुक्त इंडियन परफॉर्मिंग सोसायटी लिमिटेड (आईपीआरएस) के प्रशासन में कथित अनियमितताओं की जांच के लिए डॉक्टर वाई.पी.सी. डांगे के अधीन जांच अधिकारी/आयोग का कार्यकाल 13 जनवरी, 2016 से तीन माह की अवधि के लिए बढ़ाती है।

जांच के विचारार्थ विषय मूल राजपत्र अधिसूचना के पैरा 3 के अनुरूप रहेंगे।

अपर्णा शर्मा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT

(Department of Higher Education)
(COPYRIGHT DIVISION)

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th January, 2016

No. F. 16-4/2012-CRB/Leg.Unit.— In exercise of the powers conferred under sub-rule (3) of rule 51 of the Copyright Rules, 2013, the Central Government hereby extends the term of Inquiry Officer/Commission to inquire into alleged irregularities in administration of the Indian Performing Rights Society Ltd. (IPRS) who has been appointed earlier vide Notification Sr. No. 214 dated the 14th August, 2015 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part –I dated August 17, 2015 under Dr. Y.P.C. Dangey for a further period of three months w.e.f. the 13th January, 2016.

The terms of reference of enquiry shall remain in accordance with para 3 of the principal Gazette Notification.

APARNA SHARMA, Jt. Secy.